



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 38) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2012

सं0 22/नि0सिं0(डि0)—14—07/2006/1419—श्री विनोद कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, डिहरी प्रमण्डल, डिहरी द्वारा बरती गई अनियमितताओं यथा— सोन बराज से निसृत पश्चिमी मुख्य नहर के 32.60 कि0मी0 पर एवं पश्चिमी मुख्य नहर से निसृत गारा चौबे शाखा नहर के 1.60 कि0मी0, 4.0 कि0मी0 तथा 11.20 कि0मी0 पर दिनांक 24.05.2006 को उक्त चार बिन्दुओं के टूटान की जाँच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना से कराई गई। स्थलीय जाँच में जाँच पदाधिकारी द्वारा नहरों में टूटान का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा जल स्राव नीचे की ओर प्रवाहित होकर जाना तथा उक्त नहर प्रणाली के गेटों की संचालन व्यवस्था में गड़बड़ी होना पाया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्राप्त निष्कर्ष के आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनसे विभागीय पत्रांक 415 दिनांक 26.04.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम- 17 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया ।

श्री दास, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री दास के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 788 दिनांक 11.08.2009 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री दास, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री विनोद कुमार दास को अपने अधीनस्थ

अभियन्ताओं को कार्य कराने का निदेश दिए बिना मुख्यालय से बाहर चले जाने के लिए उन्हें दोषी पाते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

1. " निन्दन" वर्ष 2006-07
2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री विनोद कुमार दास को निन्दन वर्ष 2006-07 एवं असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड श्री विनोद कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, डिहरी प्रमण्डल, डिहरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 38-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>